



योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल
School of Planning and Architecture, Bhopal

परीक्षा फार्म

EXAMINATION FORM

END TERM/ SUPPLEMENTARY EXAM.....

सेमेस्टर _____ परीक्षा का वर्ष एवं माह _____
Semester: _____ Month & Year of Examination: _____

पंजीयन क्रमांक _____ शाखा _____
Scholar Number: _____ Programme: _____

अभ्यर्थी का नाम (प्रथम/मध्य/उपनाम) _____
Name of the Candidate (First/Middle/Surname): _____

पिता का नाम _____
Father's Name: _____

पेपर का नाम – सैद्धांतिक/व्यवहारिक/सेशनल कोड सहित, जिसमें अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है
Name of Papers – Theory/ Practical with subject code in which candidate is appearing in this examination:

क्र.स. S.No.	सैद्धांतिक Theory	विषय कोड Subject Code	व्यवहारिक Practical	विषय कोड Subject Code

दिनांक:
Date:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
Signature of Candidate

प्रमाणित करता हूँ कि नियमानुसार अभ्यर्थी उपरोक्त परीक्षा में नियमित/स्वाध्यायी छात्र के रूप में उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र है ।
I certify that the candidate is eligible to appear at the above mentioned examination as regular/ Supplementary student as per rule.

Professor- In-Charge
(Examination)



School of Planning and Architecture, Bhopal

ATTESTATION FORM

END TERM/ SUPPLEMENTARY EXAM

Scholar Number: Programme:

Semester: Section: ... Status: Regular/ Supplementary

Name of the student (Capital letter):

Month & Year of examination:

Space for Photograph (Passport size)
Signature of student

Time Table : Theory Examination					Time Table : Practical Examination				
Sr. No.	Sub. Code	Date & Time	Signature of Candidate (to be filled at the time of exam)	Signature of Invigilator	Sub. Code	Date & Time	Signature of Candidate (to be filled at the time of exam)	Signature of Invigilator	

Professor- In-Charge
(Examination)



School of Planning and Architecture, Bhopal

ADMIT CARD

END TERM/ SUPPLEMENTARY EXAM

Scholar Number: Programme:

Semester: Section: Status: Regular/ Supplementary

Name of the student (Capital letter):

Month & Year of examination:

Space for Photograph (Passport size)
Signature of student

Time Table : Theory Examination					Time Table : Practical Examination				
S. No.	Sub. Code	Date & Time	Signature of Candidate (to be filled at the time of exam)	Signature of Invigilator	Sub. Code	Date & Time	Signature of Candidate (to be filled at the time of exam)	Signature of Invigilator	

Professor- In-Charge
(Examination)